

M 13679

21/1

21/01/04

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

गुरुसर 8/40

दिनांक

21-1-04

REGD. NO. D. L.-33004/99



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

PO-255

KM. 30

Dept-05

CPB. 220

सं. 6]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 5, 2004/पौष 15, 1925

No. 6]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 5, 2004/PAUSA 15, 1925

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 2004

सं. 3/2004-सीमा शुल्क (गै.टै.)

द्वारा किया

प्रभारी

रा० वि० एकक

सा.का.नि. 7(अ).— सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की दिनांक 7 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 14/2002-सीमा शुल्क (गै.टै.) में निम्नलिखित और आगे संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, -

(क) क्रम संख्या 2 तथा तत्संबंधी प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

| (1) | (2) | (3) |
|-----|--|---|
| "2" | मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क चंडीगढ़ | जालन्धर, लुधियाना, जम्मू एवं कश्मीर के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के आयुक्त (सीमा शुल्क के निवारक कार्य के अतिरिक्त) सीमा शुल्क आयुक्त (निवारक), अमृतसर (निवारक कार्य के अतिरिक्त)" |

(ख) क्रम संख्या 31 तथा तत्संबंधी प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

| (1) | (2) | (3) |
|------|---|---|
| "31" | मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), दिल्ली | सीमा शुल्क (निवारक), दिल्ली, सीमा शुल्क (निवारक), अमृतसर (केवल निवारक कार्य), सीमा शुल्क (निवारक), जोधपुर के आयुक्त तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त (केवल सीमा शुल्क का निवारक कार्य) |

[फा. सं. 437/8/2001-सीमा शुल्क-IV]

डी. एस. गर्ब्याल, अवर सचिव

टिप्पणी :— मूल अधिसूचना सं. 14/2002-सीमा शुल्क (गै.टै.) दिनांक 7 मार्च, 2002, भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड-3, उप-खंड(i) में सा.का.नि. 170(अ), दिनांक 7 मार्च, 2002 के तहत प्रकाशित हुई थी और इसमें अंतिम बार सा.का.नि. 802 (अ) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड-3, उप-खंड(i) दिनांक 5 दिसंबर, 2002 में प्रकाशित दिनांक 5 दिसंबर, 2002 की अधिसूचना संख्या 77/2002-सीमा शुल्क (गै.टै.) द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th January, 2004

No. 3/2004-CUSTOMS (N.T.)

G.S.R. 7(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue No. 14/2002-Customs (N.T.), dated the 7th March, 2002, namely :-

In the said notification,-

- (a) for Sl. No. 2 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

| (1) | (2) | (3) |
|-----|--|--|
| "2 | Chief Commissioner of Central Excise, Chandigarh | Commissioners of Central Excise, Jalandhar, Ludhiana, Jammu and Kashmir (other than preventive work of Customs). Commissioner of Customs (Preventive), Amritsar (other than preventive work)." |

- (b) for Sl. No. 31 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

| (1) | (2) | (3) |
|-----|---|---|
| "31 | Chief Commissioner of Customs (Preventive), Delhi | Commissioners of Customs, (Preventive) Delhi, (Preventive) Amritsar (only preventive work), (Preventive) Jodhpur and Commissioner of Central Excise (only preventive work of Customs).", |

[F. No. 437/8/2001-Cus. IV]

D. S. GARBYAL, Under Secy.

Note:— The principal notification number 14/2002-Customs (N.T.), dated the 7th March, 2002 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), dated the 7th March, 2002 vide G.S.R. number 170 (E) and last amended vide notification No. 77/2002-Customs (N.T.), dated the 5th December, 2002, published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), dated the 5th December, 2002 vide G.S.R. number 802 (E).

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 2004

सं. 4/2004-सीमा शुल्क (नै.टै.)

सा.का.नि. 8(अ).— सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 15/2000-सीमा शुल्क दिनांक 7 मार्च, 2002 में निम्नलिखित और आगे संशोधन करता है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या 19 एवं तत्संबंधी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|-----|---|-----------------------------------|--|--|
| "19 | सम्पूर्ण - (1) पंजाब राज्य (2) हिमाचल प्रदेश राज्य (3) चंडीगढ़ संघ शासित क्षेत्र | सीमा शुल्क आयुक्त(निवारक), अमृतसर | सीमा शुल्क आयुक्त (निवारक) अमृतसर के नियंत्रणाधीन कार्यरत सीमा शुल्क के अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त | सीमा शुल्क आयुक्त (निवारक) अमृतसर के नियंत्रणाधीन कार्यरत सीमा शुल्क के उप आयुक्त या सहायक आयुक्त" |

[फा. सं. 437/8/2001-सीमा शुल्क-IV]

डी. एस. गार्ब्याल, अवर सचिव

टिप्पणी :— मूल अधिसूचना सं. 15/2002-सीमा शुल्क (गै.टै.) दिनांक 7 मार्च, 2002, भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड-3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 171(अ), दिनांक 7 मार्च, 2002 के तहत प्रकाशित हुई थी और इसमें अंतिम बार सा.का.नि. 349 (अ) दिनांक 23 अप्रैल, 2003 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड-3, उप-खंड (i) दिनांक 23 अप्रैल, 2003 में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 27/2003-सीमा शुल्क (गै.टै.) द्वारा संशोधन किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th January, 2004

No. 4/2004-CUSTOMS (N.T.)

G.S.R. 8(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue No. 15/2002-Customs (N.T.), dated the 7th March, 2002, namely: -

In the said notification, for Sl. No. 19 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|-----|--|---|---|--|
| "19 | The whole of- (1)The State of Punjab; (2)The State of Himachal Pradesh; (3)The Union Territory of Chandigarh. | Commissioner of Customs (Preventive), Amritsar. | Additional Commissioners, or Joint Commissioners, of Customs working under the control of the Commissioner of Customs (Preventive), Amritsar. | Deputy Commissioners, or Assistant Commissioners, of Customs working under the control of the Commissioner of Customs (Preventive), Amritsar." |

[F. No. 437/8/2001-Cus. IV]

D. S. GARBYAL, Under Secy.

Note :— The principal notification No. 15/2002-Customs (N.T.), dated the 7th March, 2002 was published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), dated the 7th March, 2002 vide G.S.R. number 171 (E) and last amended vide notification No. 27/2003-Cus. (N. T.), dated the 23rd April, 2003, published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), dated the 23rd April, 2002 vide G.S.R. number 349 (E).